



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 05-01-2023

आज दिनांक 05-01-2023 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मुथा अशोक जैन द्वारा दशाश्वमेध घाट एवं थाना दशाश्वमेध का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।

निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निम्न आदेश/निर्देश दिए गये-

1. पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय द्वारा दशाश्वमेध घाट के निरीक्षण के दौरान गंगा आरती एवं अन्य बड़े आयोजनों के अवसर पर एकत्रित होने वाली भीड़ के बेहतर प्रबन्धन तथा भीड़ प्रबन्धन के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले संचार माध्यमों का बेहतर उपयोग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय द्वारा घाटों पर आने जाने वाले मार्गों से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
3. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना कार्यालय के रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा रजिस्ट्रों को अद्यावधिक करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
4. निरीक्षण के दौरान महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस कार्यालय, मालखाना, बैरक, मेस, जनसुनवाई डेस्क आदि की समीक्षा की गई।
5. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना अन्तर्गत घटित होने वाले अपराध, अपराध का तरीका, अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी एवं उनपर अंकुश लगाये जाने के क्रम में थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।
6. निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा शातिर एवं अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर गैंगेस्टर की कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

7. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा शांति एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की पहचान के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे होने वाले अग्रेतर अपराध पर अंकुश लगाया जा सके एवं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जा सके, के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।
8. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना परिसर में खड़े वाहनो का निरीक्षण कर उनके त्वरित एवं अधिकाधिक निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया ।
9. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना परिसर व बैरक की निरन्तर साफ-सफाई कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
10. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थानों के मालखानों में रखे हुए मालों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
11. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा भीड़ नियंत्रण प्रणाली एवं खोया पाया केन्द्र, संचार माध्यमों के बेहतर प्रयोग की समीक्षा की गयी।
12. पुलिस आयुक्त कमिश्नर वाराणसी महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान प्राप्त कमियों को यथाशीघ्र दुरूस्त कराने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।**